

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (करोड़ ₹)			
	2018-19	2019			2018-19	2019		
		जून	जुलाई	अगस्त		जून	जुलाई	अगस्त
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	1366.30	118.26	127.45	118.79	171552061	15299131	16004194	14842138
1.1 ग्राहक लेनदेन	1332.96	115.99	125.07	116.56	118436812	10177608	10886126	9829147
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	33.07	2.24	2.35	2.21	17251375	1824135	1690930	1694482
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.267	0.024	0.027	0.024	35863874	3297389	3427138	3318509
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	36.17	3.10	3.62	3.34	116551038	10918363	11683806	10510799
2.1 सीबीएलओ	1.30	—	—	—	18140463	—	—	—
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	11.11	1.48	1.78	1.30	50931587	6828452	7518962	6471125
2.2.1 एकमुश्त	8.06	1.11	1.36	0.93	9355007	1507446	1766292	1292195
2.2.2 रिपो	2.162	0.205	0.229	0.186	27124989	2441204	2562517	2162777
2.2.3 त्रिपक्षीय रिपो	0.89	0.17	0.19	0.18	14451590	2879802	3190152	3016154
2.3 विदेशी समाशोधन	23.76	1.62	1.84	2.05	47478988	4089910	4164844	4039674
3 पेपर समाशोधन	11237.61	839.64	937.63	878.22	8246065	635798	687403	637093
3.1 चेक ट्रंक्शन प्रणाली	11116.69	836.46	934.80	875.55	8153592	633018	685224	635055
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2.2 अन्य केन्द्र	—	—	—	—	—	—	—	—
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	120.92	3.18	2.83	2.67	92473	2781	2179	2039
4 खुदरा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन	71132.50	6436.48	6887.21	7297.54	25874543	2058081	2114124	2136636
4.1 ईसीएस नामे	9.25	0.27	0.22	0.04	1258	9	4	7
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	53.57	3.30	2.82	3.38	13235	924	968	914
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	23188.87	1991.40	2194.19	2212.60	22793608	1749645	1784264	1796153
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	17529.09	1713.25	1892.76	2001.40	1590257	173019	182021	188886
4.5 राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	30351.71	2728.27	2797.21	3080.12	1476184	134484	146867	150676
5 कार्ड	160462.56	13760.24	14203.09	14234.95	4512210	398120	400652	405503
5.1 क्रेडिट कार्ड	17723.61	1640.46	1792.82	1804.31	607946	57317	60025	60011
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	97.71	8.12	8.66	8.58	4533	388	409	410
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	17625.90	1632.33	1784.16	1795.73	603413	56928	59616	59601
5.2 डेबिट कार्ड	142738.96	12119.79	12410.27	12430.65	3904264	340803	340626	345492
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	98596.15	8004.84	8160.15	8142.95	3310789	283403	282133	287452
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	44142.81	4114.94	4250.12	4287.70	593475	57400	58494	58040
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	46072.29	3898.19	4075.89	4070.66	213324	17764	18437	18324
6.1 एम-वॉलेट	41419.42	3347.01	3471.32	3493.36	183902	15471	15949	15693
6.2 पीपीआई कार्ड	4652.33	551.17	604.57	577.31	29335	2293	2488	2631
6.3 पेपर वाउचर	0.54	0.00	0.00	0.00	87	—	—	—
7 मोबाइल बैंकिंग	62003.19	8486.06	9111.82	10157.79	2958407	497543	563140	328043
8 कार्ड बकाया	9717.19	8865.40	8908.80	9033.26	—	—	—	—
8.1 क्रेडिट कार्ड	470.89	496.48	502.64	517.65	—	—	—	—
8.2 डेबिट कार्ड	9246.30	8368.92	8406.16	8515.60	—	—	—	—
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	221703	226839	227629	228170	—	—	—	—
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	3722229	4068954	4252850	4409250	—	—	—	—
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	290307.16	25055.89	26234.87	26603.49	291085366	26029868	27481479	25231983

टिप्पणी: पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

2.1: 5 नवंबर 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को समाप्त कर दिया है।

2.2.3: 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो सेगमेंट के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत की गई है।